



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]
No. 349]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 10, 2003/चैत्र 20, 1925
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 10, 2003/CHAITRA 20, 1925

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2003

का.आ. 427(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ उनहत्तरवां संशोधन) नियम, 2003 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में :—
 - (1) पहली अनुसूची में, "10. वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय" शीर्षक और उसके अंतर्गत उपशीर्षकों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और उपशीर्षक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"10. वित्त मंत्रालय

 - (i) आर्थिक कार्य विभाग
 - (ii) व्यय विभाग
 - (iii) राजस्व विभाग
 - (iv) कंपनी कार्य विभाग";
 - (2) द्वितीय अनुसूची में, "वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, "वित्त मंत्रालय" शीर्षक रखा जाएगा।"

आ. प. जै. अब्दुल कलाम

राष्ट्रपति

[पत्र. सं. 1/22/1/2003-मंत्रि.]

बी.बी. जैन, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th April, 2003

S.O. 427(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and sixty-ninth Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, —

(1) in the First Schedule, for the heading “10. Ministry of Finance and Company Affairs (Vitta aur Kampany Karya Mantralaya)” and the sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely :—

“10. Ministry of Finance (Vitta Mantralaya)

(i) Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag)

(ii) Department of Expenditure (Vyaya Vibhag)

(iii) Department of Revenue (Rajaswa Vibhag)

(iv) Department of Company Affairs (Kampany Karya Vighag);

(2) in the Second Schedule, for the heading “MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (VITTA AUR KAMPANY KARYA MANTRALAYA)”, the heading “MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)” shall be substituted.”

A. P. J. ABDUL KALAM

PRESIDENT

[F. No. 1/22/1/2003-CAB.]

B.B. JAIN, Under Secy.